



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1937 (श0)
(सं0 पटना 651) पटना, बुधवार, 10 जून 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना
17 अप्रील 2015

सं0 22/नि0सि0(मुज0)-06-11/2013/915—श्री भरत पूर्वे, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, तिरहुत नहर अंचल, मुजफ्फरपुर सम्प्रति निलंबित मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना के विरुद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में आर्थिक अपराध ईकाई द्वारा भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम 1988 के तहत दर्ज प्राथमिकी के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-138 दिनांक 27.01.14 द्वारा श्री पूर्वे को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया। उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प सं0-281 दिनांक 7.3.14 द्वारा श्री पूर्वे के बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में ही दिनांक 31.03.15 को श्री पूर्वे के सेवानिवृत्त हो जाने के कारण श्री पूर्वे को दिनांक 31.03.15 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करने के साथ ही उनके विरुद्ध पूर्व में संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) में सम्परिवर्तित करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री पूर्वे को दिनांक 31.03.15 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए श्री पूर्वे के विरुद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) में सम्परिवर्तित किया जाता है एवं उक्त निर्णय से श्री पूर्वे को संसूचित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 651-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>